




कार्यालय नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम कानपुर।


पत्रांक:- 1393/D(SWA)/NSA


दिनांक:- 21/03/2022

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की सफाई एवं खाद्य निरीक्षक/केमिस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2022 को पूर्णचन्द्र विद्या निकेतन, बर्दा-2, कानपुर नगर का निरीक्षण किया गया तथा पानी का सैम्पल लिया गया जिसमें पेयजल की गुणवत्ता पेययोग्य एवं विद्यालय में सेनेटरी एवं हाइजेनिक स्थितियां हैल्थ मैनुअल के अनुरूप सही पायी गयी है।


MANAGER
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR


PRINCIPAL
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम कानपुर



KANPUR NAGAR NIGAM

PUBLIC HEALTH LABORATORY, KANPUR NAGAR NIGAM

Chemical water analysis report for the

PURANCHANDRA VIDYANIKETAN - Barua-2

Sample taken from	Submersible	Kanpur Nagar
Date of sample Drawn	15/03/2022	
Date of analysis	15/03/2022	
Physical Character	Transparent	
P. H. Value	8.0	
Free Ammonia Parts per 1000000	Nil	
Alouninoid Ammonia Part per 1000000	Nil	
Oxygen absorbed from pot. Permagnate in three hours at 37° C	0.0	
Chloride Part per 1000000	28.00	
Nitrates Parts per 1000000	Nil	
Nitrates Parts per 1000000	Nil	
Total solid part per 100000	690.0	
Fixed solid Parts per 1000000	810.0	
Volatils solid Parts per 100000	80.0	
Appearance on ignition	No Charring	
Total hardness Parts per 1000000	240.00	
Permanent hardness Parts per 1000000	148.00	
Temporary hardness Parts per 1000000	92.00	

K.N.N. PRESS

Remarks :

Potable

A. S. Chandra

MANAGER
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR

P. S. Chandra

PRINCIPAL
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR

No. 264/Sandhan dated 21/03/2022

Copy forwarded for favour or information to

1) Puranchandra Vidya Niketan
Barua, Kanpur Nagar

2) N.S.A. Kanpur Nagar Nigam

Nagar Swachhata Adhikari
Nagar Nigam Kanpur
नगर स्वच्छता अधिकारी
नगर नगम कानपुर



KANPUR NAGAR NIGAM

D.No. 264/SWA/Chem 21/03

PUBLIC HEALTH LABORATORY NAGAR NIGAM KANPUR

Result of Bacteriological Examination of Water Sample taken from

Purnachandra Vidyaniketan, Bara 2 Kany

Name & designation of the person collecting samples

Alka Singh - Chemist (G.D)

Date & time of collection	Source of sample	Colony count on Agar Agar per M. L. of water		Presumptive Coliform count			Probable on of coliiform organism in 100 CC of original water	Free Residual Chlorine part per Million	REMARK	
		at 37.c in 48 hours	at room temp- rature in 72 hours	Quantity of water put in each tube No of tubes put up	50ML. 1	10 ML. 5				1 ML 5
15/03/2022	Submersible	Zero	Zero	—	Nil	Nil	Nil	Zero	0.2ppm	Excellent

Copy for Information Forwarded to

(1) Purnachandra Vidyaniketan

(2) N.S.A., Kanpur Nagar Nigam.

A. Veer

MANAGER
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR

P. S. Pal

PRINCIPAL
PURANCHANDRA VIDYANIKETAN
KANPUR

Alka Singh
Nagar Swadhyaya Adhikari
15/03/2022